



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 24 मार्च, 2023

थाना अहमदगढ

01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशांदाही से चोरी की 05 मोटरसाइकिल, अवैध असलहा व कारतूस बरामद

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 23.03.2023 की रात्रि में थाना अहमदगढ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम खेलिया के गेट के पास से 01 अभियुक्त को चोरी की एक मोटरसाइकिल, अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदाही पर कीकर के जंगल में झाड़ियों से 04 अन्य मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अहमदगढ पर मुअसं- 71/23 धारा 420,411,414 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- रविन्द्र पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम जलालपुर करीरा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 मोटरसाइकिल स्पलैंडर प्लस नं०-UP-13J-4847(सही नं०-UP-13AL-7828)
2. 01 मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर
3. 01 मोटरसाइकिल डिस्कवर बिना नम्बर
4. 01 मोटरसाइकिल प्लेटिना बिना नम्बर
5. 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा बिना नम्बर
6. 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि उसने मोटरसाइकिलों को अलग-अलग स्थानों से चोरी किया है तथा मौका मिलने पर वह मोटरसाइकिल के टुकड़े करके कबाडी को बेच देता है। पुलिस से बचने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट लगा देता है।

अभियुक्त से बरामद मोटरसाइकिल नं०-UP-13AL-7828 को दिनांक 26.01.23 को शिकारपुर से चोरी किया था जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर मुअसं 23/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अतुल कुमार चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ
2. उ०नि० अखिलेश कुमार
3. का० नैन सिंह, का० संजय





मीडिया सैल बुलन्दशहर